

‘रन फॉर यूनिटी’ में दौड़ा पूरा दीव

दीव, 31 अक्टूबर 2018.

आधुनिक भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जन्म-जयंती के अवसर पर आज सबेरे 8.00 बजे दीव में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया गया। एकता की इस दौड़ में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। तड़के 7.00 बजे से ही पद्मभूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में लोगों का जमावड़ा आरंभ हो गया। लाउडीस्पीकर पर सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी बातों को साझा किया जाने लगा। 8.00 बजते-बजते पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भर गया। जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालयों के शिक्षक एवं विद्यार्थी सरदार पटेल की फोटो वाली टी-शर्ट पहनकर यत्र-तत्र-सर्वत्र नज़र आने लगे। जिला के उप समाहर्ता डॉ. अपूर्व शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री हरेश्वर विश्वनाथप्पा स्वामी के ग्राउंड में पहुंचते ही ‘रन फॉर यूनिटी’ के लिए लोग तैयार हो गए।

सबसे पहले ग्राउंड में उपस्थित लोगों ने एकता और अखंडता की शपथ ली। बाद में जिला के दोनों शीर्ष अधिकारियों ने सरदार पटेल के चित्र से बंधे हुए गुब्बारे को उड़ाकर एवं हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। लोगों ने पद्मभूषण स्पोर्ट्स ग्राउंड से बे-ओटली, जेठीबाई बस स्टैंड, बंदर चौक, पंचवटी रोड, झांपा होते हुए पुनः पद्मभूषण स्पोर्ट्स ग्राउंड तक दौड़ लगाई। इस अवसर पर दीव नगरपालिका परिषद की ओर से धावकों के लिए नास्ता और नींबू पानी की व्यवस्था की गई थी। दौड़ पूरी करने के बाद लोगों ने नास्ते एवं नींबू पानी का आनंद लिया।

इस अवसर पर मलाला ऑडिटोरियम में सरदार पटेल की जीवन के उपर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी दिखाई गई। बाल भवन बोर्ड की ओर से शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।